

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 611]

रायपुर, रविवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2024 — अश्विन 21, शक 1946

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

### संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.— छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/मबावि/50, दिनांक 19-02-2024 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीयन का नवीनीकरण किया गया था।

राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्न संस्था में आंशिक संशोधन करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है:—

| क्र. | शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता                                                   | बाल गृह का पता                                                                                                         | जिला  | बाल देखरेख संस्था की प्रकृति | वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता |        | पंजीयन क्रमांक |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|
|      |                                                                                            |                                                                                                                        |       |                              | बालक                                          | बालिका |                |
| 1    | मदरसा अशरफिया कमेटी<br>पता — कसारीडीह,<br>वार्ड नं. 36, कसारीडीह,<br>जिला<br>दुर्ग, (छ.ग ) | बालगृह (बालक),<br>अशरफिया गुप,<br>नेकी की दीवार के<br>सामने, कसारीडीह,<br>सिविल लाईन्स,<br>दुर्ग, जिला—दुर्ग<br>(छ.ग ) | दुर्ग | बालगृह<br>(बालक)             | 50                                            | —      | 07/DURG/16-17  |

- यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा ।
- संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज

उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो ।

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा ।
4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शम्मी आबिदी, सचिव.